

प्रेस-विज्ञप्ति**थाना- फूलपुर**

थाना फूलपुर व पवई की संयुक्त कार्यवाही के दौरान पुलिस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से एक शातिर गैंगस्टर गोकश घायल, गिरफ्तार, एक चोरी की मोटर साईकल एक अवैध कट्टा व एक जिंदा कारतूस बरामद

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी फूलपुर के कुशल निर्देशन में दिनांक-01.01.2020 को प्रभारी निरीक्षक रत्नेश कुमार सिंह मय हमराह देखभाल क्षेत्र तलाश वांछित व्यक्ति /वाहन चेकिंग के दृष्टीगत उच्चाधिकारीगण द्वारा दिए गए आदेश निर्देश के क्रम में अम्बारी चौराहा पर संदिग्ध व्यक्ति /वाहन चेकिंग कर रहा थे कि जरिए मुखबीर सूचना मिली की एक मोटरसाइकिल पर दो सवार व्यक्ति किसी घटना को अन्जाम देने के फिराक में माहूल की तरफ से आने वाले हैं इस सूचना पर विश्वास करके प्र0नि0 मय हमराहीयान चौकी प्रभारी अम्बारी थानाध्यक्ष पवई को जरिए दुरभाष सूचना देते हुए सरैया पुलिया के पास पहुँचे तब तक चौकी प्रभारी अम्बारी राजेन्द्र प्रसाद सिंह मय हमराही का0 विरेन्द्र यादव के साथ तथा कुछ ही क्षणों में थानाध्यक्ष पवई उ0नि0 अयोध्या तिवारी मय हमराह के साथ मौके पर आ गए। प्र0नि0 द्वारा टीम का नेतृत्व करते हुए अपने व हमराहीयान मय चौकी प्रभारी अम्बारी मय हमराही को प्रथम टीम में तथा थानाध्यक्ष पवई मय हमराहीयान को द्वितीय टीम में नियुक्त कर आवश्यक दिशा निर्देश देकर सड़क पुलिया के दोनों तरफ प्रथम टीम पुलिया से अम्बारी की तरफ लगभग 50 मीटर की दूरी पर तथा द्वितीय टीम पुलिया से माहूल की तरफ लगभग 50 मीटर की दूरी पर नियुक्त कर संदिग्ध व्यक्तियों का आने का इन्तजार करने लगे कि थोड़ी देर के बाद माहूल की तरफ से एक गाड़ी आती हुई दिखाई दी जिस पर दोनों टीम सतर्क हो गयी कार्य योजना के तहत गाड़ी रोकने की जिम्मेदारी प्रथम टीम के तहत टीम प्रथम द्वारा गाड़ी को रोका गया तो पुलिस को सामने देखकर गाड़ी पीछे मोड़कर भागना चाहे कि गाड़ी असन्तुलित होकर गिर गयी तब तक टीम द्वितीय के पुलिस कर्मी भी घेराबन्दी कर लिए मोटरसाइकिल से गिरे संदिग्ध दोनों व्यक्ति अपने को पुलिस वालों से घिरा देखकर पुलिस वालों के ऊपर फायर करने लगे जिसको पुलिस वालों ने सिखलाए हुए तरीकों से बचाव किया तथा संदिग्ध दोनों व्यक्तियों को पुलिस वाले जान की परवाह न करते हुए अदम्य साहस का परिचय देते हुए बदमाशों को ललकारा की तुम लोग पुलिस के घेरे में आ गए हो आत्मसमर्पण कर दो नहीं तो मारे जाओगे इस पर दोनों व्यक्ति पुलिस वालों को लक्ष्य करते हुए जान से मारने की नियत से एक एक फायर किए कि पुलिस वालों द्वारा आत्मरक्षार्थ प्र0नि0 द्वारा तथा थानाध्यक्ष पवई द्वारा सिमित अपने द्वारा लिए हुए असलहों द्वारा एक एक फायर किया गया जिसपर एक बदमाश मौके पर गिर गया व एक बदमाश मौके से फायर करता हुआ अन्धेरे का लाभ लेते हुए भागने लगा जिसका पीछा पुलिस फोर्स द्वारा किया गया। लेकिन मौके से भागने में सफल रहा। मौके पर गिरे व्यक्ति के पास सिखलाये हुए तरिके से पहुँचकर उसका नाम पता पुछते हुए भागने व फायरिंग करने का कारण पुछा गया तो कराहते हुए उसने अपना नाम .लाल मोहम्मद उर्फ लल्लू पुत्र हाजी हसन निवासी मुडियार थाना फूलपुर जिला आजमगढ़ बताया तथा भागने वाले बदमाश के बारे में पुछा गया तो उसका नाम इब्राहिम पुत्र मसरूर निवासी मुडियार थाना फूलपुर जिला आजमगढ़ बताया पकड़े गए व्यक्ति की जमा तालाशी ली गयी तो दाहिने हाथ में एक अदद तमन्चा 315 बोर तथा पहने हुए लोवर के वायी जेब से एक जिन्दा कारतूस 315 बोर तथा मौके पर पड़ी मोटरसाइकिल बिना नम्बर की सुपर स्पेलेण्डर काले रंग की सफेद पट्टी लगी हुयी जिसका चे0नं0 MBLJA05EWG9K11120 इन्जन नं0 JA05EC59K49795 बरामद हुई . जिसके विषय में पुछा गया तो उसने मोटरसाइकिल को स्वयं की बताते हुए कागजात दिखाने से कासिर रहा जिसे अन्तर्गत धारा 207 MV ACT में सीज किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मु0अ0सं0 01/21 धारा 307 भादवि धारा 3/25 आर्म्स एक्ट , थाना फूलपुर, आजमगढ़ पंजीकृत कर चालान माननीय न्यायलय किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.लाल मोहम्मद उर्फ लल्लू पुत्र हाजी हसन निवासी मुडियार थाना फूलपुर जिला आजमगढ़।

बरामदगी-

अदद तमन्चा 315 बोर एक अदद खोखा कारतूस व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 01/21 धारा 307 भादवि धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना फूलपुर, आजमगढ़ ।

अपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 01/21 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना फूलपुर, आजमगढ़ ।

2. मु0अ0सं0 279/19 धारा 34,307,336, भादवि व 3/5ए/8 गोवध व 11 पशु क्रूरता अधि0

3. मु0अ0सं0 134/20 धारा 3(1) गैग्रेस्टर एक्ट थाना फूलपुर

गिरफ्तारी/ बरामदगी करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री रत्नेश कुमार सिंह

2. थानाध्यक्ष पवई उ0नि0 श्रीअयोध्या तिवारी

3. चौकी प्रभारी अम्बारी उ0नि0 श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह

4. का0 श्रवण शुक्ला

5. का0 ब्रह्मानन्द यादव

6. म0का0 बबली साहू

7. का0 विपिन यादव

8. का0 उपेन्द्र यादव

9. म0का0 अंजली सिंह

10. का0 विरेन्द्र यादव